

## कोर्स रिपोर्ट

संस्था में बीपीआरएण्डी के सहयोग से दिनांक 09.01.2017 से 18.01.2017 तक 10 दिवसीय इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम केसेज विषय पर कोर्स का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान पुलिस के 09 पुलिस निरीक्षक व 07 पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों सहित 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया इसमें प्रमुख आर्थिक अपराधों के अनुसंधान विषय पर विभिन्न अतिथि व्याख्याताओं द्वारा जिसमें प्रमुख श्री डी.सी. जैन, अतिरिक्त महानिदेशक (पुलिस सर्तकता), श्री एम.एम. अत्रे, पुलिस महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त), श्री आर. एस. शर्मा, सहायक निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सेवानिवृत्त), श्री मिलिन्द अग्रवाल साईबर विशेषज्ञ, श्री आर. एस. बत्रा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा(सेवानिवृत्त), श्री नीरज माथुर, मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, श्री रामावतार जैन सहायक रजिस्टार कॉर्पोरेटिव (सेवानिवृत्त), श्री जगदीश प्रसाद उप अधीक्षक सी.बी.आई. (सेवानिवृत्त), व श्री मुकेश यादव, पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा इन्फिटिंग ऑफ एफ.आई.आर., साक्ष्य का संकलन, आर्थिक अपराधों में डिजिटल साक्ष्य का संकलन, दस्तावेजों का परीक्षण, मादक पदार्थ अपराधों में वित्तीय अनुसंधान, जमीनों के विवादों/ घोटालों व कॉर्पोरेटिव बैंक से संबंधित मामलों का अनुसंधान ऑन लाईन बैंकिंग अपराधों की रोकथमों व अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत अनुसंधान व जानकारी, आर्थिक अपराधों अन्वेषण में मोबाईल एवं कम्प्यूटर का विषयों पर व्याख्यान दिया। प्रतिभागियों को पुलिस थाना एस.ओ.जी. व मानक चौक का भ्रमण करवाया गया। कोर्स के समापन समारोह में श्री टी.एल. मीना, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मानव तस्करी विरोधी सैल, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित कर प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री जगदीश पूनियां , पुलिस उप अधीक्षक (इण्डोर) थे।

